

SCRIP CODE: 523367	SCRIP CODE: DCMSHRIRAM
<u>Mumbai – 400 001</u>	Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) <u>Mumbai: 400 051</u>
Dalal Street,	5 th Floor, Plot No. C-1, G Block,
Phiroze JeeJeeBhoy Towers,	"Exchange Plaza",
BSE Limited	National Stock Exchange of India Ltd.,

Kind Attn.: Department of Corporate Communications/Head - Listing Department

Sub. : Newspaper Advertisements for the Notice of Postal Ballot

Dear Sirs,

In continuation to our letter dated December 1, 2023 regarding the Postal Ballot Notice, please find enclosed copies of the newspaper advertisements published in the Financial Express (English) and in the Jansatta (Hindi) on December 2, 2023 confirming dispatch of the Postal Ballot notice.

Please arrange to take the above information on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For DCM Shriram Ltd

Sameet Gambhir Company Secretary

Dated: 02.12.2023

Encl.: As above

FINANCIAL EXPRESS

ECONOMY 3

ika Bank Ltd. 100

, Mahaveera Circle, Kankanady, Mangaluru - 575 002. -mail: investor,grievance@ktkbank.com abank.com, CIN: L85110KA1924PLC001128

SS OF SHARE CERTIFICATE

the following share certificate(s) have been placed and upon request from the the Bank will proceed to issue duplicate share mentioned person(s) unless a valid objection into its received by the Bank at its registered me date of publication of this notice. No claims a Bank with respect to the original share the issue of the duplicate thereof.

Dist No.		No. of	Name of the	
From	To	Shares	Share Holder	
1426147	1426196	2880	VENKATARAMANA	
2363821	2363920		KRISHNA BHAT	
0676265	10676414		anning a	
4315576	24315875	in the		
9910649	29910948			
2866250	52868229	Sych toly		

For Karnataka Bank Ltd Sham K Company Secretary

AND PROJECTS LIMITED

khroli (West), Mumbai - 400083. Maharashtra, India Isite: www.gecpl.com, Email Id: geninfo@gecpl.com DR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED

R THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED (Rs in Lakhs)

ded	Half Year Ended		Year Ended
0/09/2022 Inaudited)	30/09/2023 (Unaudited)	30/09/2022 (Unaudited)	31/03/2023 (Audited)
5,351.76	8,999,38	12,358.66	27,253.90
364.66	549.24	790.90	2,003.74
364.66	549,24	790,90	2,003.74
307.82	528.01	623.82	1,531.12
307.82 2,106.97	528.01 2,651.81	622.70 2,106.97	1,531.12 2,651.81
0.73 0.66	1.04 0.94	1.48 1.33 .	3.58

ting Standards ("IND AS") notified under section 133 counting Standards) Rules 2015.

Financial Results for the quarter and half year ended of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) are the balancing figures between un-audited figures bublished figures for the quarter ended June 30, 2023. year ended are available on the websites of the Stock www.gecpl.com).

By Order of the Board of Director neric Engineering Construction and Projects Limited

Sd/-Mr. Manish Patel Managing Director DIN: 00195878 convertible Debentures in the denomination of Rs.10,00,000 each, issued by Pipeline Infrastructure Limitled, on private placement basis and listed on the debt market segment of BSE Limitled ("NCDs"), the Company has fixed "Record Date" for determining the names of the NCD holders eligible to receive interest. The NCD holders whose names appear as Beneficial Owners on the Record Date as per the list furnished by the Depositories would be entitled to the said payment, as per the following detals:

Sr. No.	ISIN	Record Date		Date of payment of interest/ Redemption
1	INE01XX07026	Saturday, December 16, 2023	Interest	Sunday, December 31, 2023*
*Inte	rest Payment Due	Date i.e. 31-12-2023 is a non-Ru	siness Day Her	ice as ner terms of issuance of

NCDs, interest will be payable on the immediately succeeding Business Day i.e. 01-01-2024.

usiness Day 1.e. 01-01-202-.
For Pipeline Infrastructure Limited Sd/Astrid Lobo

Astrid Lobo Company Secretary & Compliance Officer ACS 58241

DCM SHRIRAM LTD.

Place: Navi Mumbai Date: December 1, 2023

> 2nd Floor (West Wing), Worldmark-1, Aerocity, New Delhi - 110037 CIN: L74899DL1989PLC034923 | Tel. no.: (91) 11-42100200 Email: shares@dcmshriram.com | Website: www.dcmshriram.com

Notice for passing Ordinary Resolution by ₽ostal Ballot process, through remote e-voting

through remote e-voting

The Shareholders of DCM Shiriam Ltd. ("the Company") are hereby informed that pursuant to the provisions of Sections 108, 110 of the Companies Act, 2013, Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 19/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), Regulation 44 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable statutory provisions, if any (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), the Company has dispatched Postal Ballot Notice dated November 27, 2023 to its Shareholders through electronic means, to seek their approval by Ordinary Resolution for appointment of Mr. Rabinarayan Mishra (DIN: 10377015) as Director on the Board of the Company as nominee of Life Insurance Corporation of India, liable to retire by rotation, by way of remote e-voting (e-voting') process.

The electronic dispatch of the Postal Ballot Notice, along with Explanatory Statement thereto, has been completed on December 1, 2023. In accordance with the MCA Circulars referred above, the said Postal Ballot Notice has been sent through electronic mode to only those Shareholders, whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners received from the depositories, as on the Cut-off date, i.e. November 24, 2023 and whose e-mail IDs are registered with the Company/Depositories/RTA. Physical copies of Postal Ballot Notice, Postal Ballot Forms and Prepaid Business Reply Envelopes are not being sent to the Shareholders for this Postal Ballot.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ('NSDL') as the e-voting agency for conducting this postal ballot process. The e-voting period shall commence from 9:00 A.M. (IST) on December 4, 2023 and end at 5:00 P.M. (IST) on January 2, 2024. Thereafter, the e-voting module shall be disabled and voting by electronic means shall not be allowed. Shareholders are, therefore, requested to cast their votes during the said e-voting period only. The detailed procedure and instructions for e-voting are mentioned in the Postal Ballot Notice.

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website at www.dcmshriram.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.nseindia.com and www.nseindia.com and www.nseindia.com and www.nseindia.com shareholders, who do not receive the Postal Ballot Notice, may download the same from any of the above mentioned websites. Voting rights of the Shareholders shall be reckoned on the paid up value of shares as on the cut-off date. A person, who is not a Shareholder as on the cut-off date, should treat the Postal Ballot Notice for information only. Members, whose e-mail IDs are not registered, are requested to follow the procedure detailed in the instructions in Postal Ballot Notice to obtain looin credentials.

In case of any queries, kindly refer to the FAQs / E-Voting User Manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at 022-4886 7000 or 022-2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Amarijeet from MCS Share Transfer Agent Ltd. (RTA) at 011-4140 6148 or admin@mcsregistrars.com

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Kapil Dev Taneja (CP no. 22944, M No. F-4019) or failing him Mr. Neeraj Arora (CP no. 16186, M No. F-10781), Partner of M/s Sanjay Grover & Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the aforesaid Postal Ballot process through e-voting.

Upon completion of the votes cast through e-voting, the Scrutinizer shall submit his report to the Chairman and / or to the Company Secretary. The result of Postal-Ballot along with Scrutinizer's Report shall be announced within two working days of the date of conclusion of the remote e-voting, to the Stock Exchanges and will be also displayed on the Company's website at www.dcmshiram.com, on website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and at the Registered Office of the Company.

SEBI has mandated the Company/RTA to obtain copies of PAN Card, KYC Details, Bank Account Details, Nomination Form, etc. from all shareholders holding shares in physical form. Therefore, shareholders holding shares in physical mode are requested to provide PAN, KYC and other details at the earliest, along with the prescribed documents/details. Further, to obtain the inherent advantages of dematerialization, shareholders holding shares in physical form are requested to convert their holding into dematerialized mode at the earliest. For more details, please visit https://www.dcmshriram.com/investors/shareholders-corner.

By Order of the Board For DCM Shriram LTD. Sdl-Sameet Gambhir Company Secretary 22 of the Companies (M: the Act and the Rules, 03/2022, 11/2022 and 0 ("MCA") Circulars, Regulation ("MCA") the Institute of any statutory modificatic time), that the Newgen Postal Ballot by way of votal Ballot Notice ("

Notice is hereby given pu

the Postal Ballot No	otice (
Resolution – 1 (Ordinary)	Inc
Resolution – 2 (Ordinary)	То

Members are informed

- a) the Company has or to the members wh November 24, 2023 of the Paid-up Equit cut-off date shall treat
- b) The Notice of Posta Stock Exchanges i.e www.nseindia.com.
- c) In compliance with the paid business enveronmunicate their Technologies Limiter
- e) The e-voting facility

Commencement of e-ve


End of e-voting

Mr. Devesh Kumar Vasis Partner of M/s DPV & A conducting the e-voting

- f) Once the vote on a r cast the vote again. mentioned date and
- g) The Board of Direct Issue of Bonus Shar paid-up bonus equil share of Rs.10/- (Ru through Postal Ballo of the Members who
- h) The detailed proced
- i) Members whose e communications by address, bank detai submitting Form ISF However, for the sha
- j) the result of the pos 2024 and communi Company's website
- k) In case of any quer Manual for Membe Registrar 040–6716 grievances connect (Unit: Newgen Soft No 31 & 32, Financ 500 032.

Date: 01.12.2023 Place: New Delhi





डीसीएम श्रीराम लिमिटेड

जनसता

दूसरी मंजिल (पश्चिम विंग), वर्ल्डमार्क-1, एरोसिटी, नई दिल्ली-110037 CIN: L74899DL1989PLC034923 | दूरमाष संo. (91) 11-42100200 ईमेलः <u>shares@dcmshriram.com</u> | वेबसाइटः <u>www.dcmshriram.com</u>

रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र प्रक्रिया द्वारा साधारण प्रस्ताव को पारित करने के लिए सूचना

एतद्द्वारा डीसीएम श्रीराम लिमिटेड ('कंपनी') के शेयरघारकों को सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी परिपन्न सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपन्न सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपन्न सं. 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 (इसके बाद सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपन्न' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 108, 110, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और 22, और संबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनयम, 2015, के विनयम 44 और अन्य लागू आंच सोना में के नियम 44 और अन्य लागू प्रावचानों, मारतीय कंपनी सर्विव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सर्विवीय मानक (एसएस-2) और अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो (किसी वैधानिक संशोधन या तत्समय लागू और समय-समय पर यथा संशोधित पुनः अधिनियमन सहित), के अनुसरण में, कंपनी ने अपने शेयरधारकों को भारतीय जीवन बीमा नियम के नामिती के रूप में कंपनी के बोई में निदेशक के रूप में श्री रबीनारायण मिश्रा (डीआईएन: 10377015), रोटेशन के आघार पर सेवानिवृत्त होने योग्य, की नियुक्ति के लिए साधारण संकल्प द्वारा रिमोट ई—वोटिंग ('ई—वोटिंग') प्रक्रिया के माध्यम से उनकी मंजूरी लेने के लिए, दिनांक 27 नवंबर, 2023 का पोस्टल बैलेट नोटिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मेज दिया है।

पोस्टल बैलेट नोटिस का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण, उसके व्याख्यात्मक विवरण के साथ, 1 दिसंबर, 2023 पास्टल बलट नाटिस का इलक्ट्रानक प्रषण, उसक व्याख्यात्मक ावरण क साथ, 1 16484, 2023 को पूरा हो गया है। ऊपर उल्लिखित एमसीए परिपन्नों के अनुसार, उक्त पोस्टल बैलेट नोटिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केवल उन शेयरधारकों को मेजा गया है, जिनके नाम कट-ऑफ तारीख, यानी 24 नवंबर, 2023 को सदस्यों के रिजस्टर/डिपॉजिटरी से प्राप्त लामार्थी स्वानियों की सूची में दिखाई देते हैं और जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी/आरटीए के पास पंजीकृत हैं। इस पोस्टल बैलेट लेलिट शैलिट के लिए शेयरधारकों को पोस्टल बैलेट नोटिस की मौतिक प्रतियां, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे नहीं मेजे जा रहे हैं।

कंपनी ने इस डाक मतपत्र प्रक्रिया को आयोजित करने के लिए ई-बोटिंग एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ती हैं। ई-बोटिंग अविध 4 विसम्बर्, 2023 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और 2 जनवरी, 2024 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। उसके बाद ई-बोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे केवल कथित ई-बोटिंग अविध के दौरान ही अपना वोट दें। ई-बोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश डाक मतपत्र सुनना में दिये गये हैं।

डाक मतपत्र सूचना कंपनी की वेबसाइट www.dcmshriram.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई और एनएसई की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> एवं <u>www.nseindia.com</u> और एनएसडीएल की वेबसाइट <u>www.evolina.nsdl.com</u> पर चपलब्द है। जिन शेयरघारकों को डाक मतपूत्र सूचना प्राप्त नहीं होती है वह इसे उपरोक्त वर्णित किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। शेयरपारकों के वीटिंग अधिकार की गणना कट—ऑफ तिथि को शेयरों के प्रदत्त मूल्य पर की जाएगी। ऐसा व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को शेयरघारक नहीं है, वह इसे केवल सूचना का प्रयोजन मात्र समझे।

जिन सदस्यों की ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे लॉगिन क्रेडेशियल प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलेट नोटिस में दिए गए निर्देशों में दी गई प्रक्रिया का पालन करें।

किसी भी पूछताछ के लिए कृपया <u>www.evoling.nsdl.com</u> के उठानलोड सैक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए एफएक्यू/ई-बोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन करें अथवा 022-4886 7000 या 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे, विरेष्ठ प्रबंधक से <u>evoling@nsdl.co.in</u> पर या श्री अमरजीत, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि. (आरटीए) से फोन नं. 011-4140 6148 या admin@mcsregistrars.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग के माध्यम से उपरोक्त कथित डाक मतपत्र प्रक्रिया को आयोजित करने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में श्री किंपत देव तनेजा (सीपी नं. 22944. एम नं. एफ-4019) या उनकी अनुपस्थिति में श्री नीरज अरोड़ा (सी पी नं. 16186, एम. नं. एफ-10781), साझेदार मैसर्स संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स, कंपनी सथिव को नियुक्त किया है।

ई—वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों के पूरा होने पर, स्कूटिनाइज़र अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष और/या कंपनी सचिव को प्रस्तुत करेगा। स्कूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ पोस्टल बैलेट का परिणाम रिमोट ई—वोटिंग के समापन की तारीख के दो कार्य दिवसों के मीतर स्टॉक एक्सवेंजों को घोषित किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट <u>www.domshiram.com</u>, एनएसडीएल की वेबसाइट <u>www.evoling.nsdl.com</u> और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

सेंबी ने कंपनी/आरटीए को भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी शेयरघारकों से पैन कार्ड, केवाईसी विवरण, बैंक खाता विवरण, नामांकन फोंर्म इत्यादि की प्रतियां प्राप्त करने का आदेश दिया है। इसलिए, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरघारकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित दस्तावेजों / विवरणों के साथ-साथ जल्द से जल्द पैन, केवाईसी और अन्य विवरण प्रदान करें। इसके अलावा, डीमैटरियलाइजेशन के अंतर्निहित लाग प्राप्त करने के लिए, मौतिक रूप में रोपर रखने वाले शेवरघारकों से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज्ड मोड में परिवर्तित करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.domshriram.com/investors/shareholders-corner देखें।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते डीसीएम श्रीराम लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 1 दिसम्बर, 2023 हस्ता/-समीत गंभीर कंपनी सचिव



कार्यालय वसूली अधिकारी-। ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

पंजाब नैशनल बैंक

बनाम

मैसर्स प्रेशस हॉस्पिटैलिटी एण्ड लेजर प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य

पह नीलानी विक्री येहमार्टर : https://www.bahkeauctions.com पर "ऑन त्यांन ई-मीलामी" होगी। मी की विवि एवं समय : 10.01.2024 को 11.00 बजे पूर्वों से 12.00 बजे अप (12 बजे अप के बाद वेदि जरूरी हुआ, 5 को अवधि के दिस्तार के साथ)

सम्यात का	laatul .	
सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ईएमडी)
चलता नं. 18 एवं 24, पीटी शीट नं. 43, निकट जुआरी रिवर, मुनवेल, निकट गोवा शिपयार्ड, वास्को (गोवा)	रु. 2,57,40,000/- (रुपये दो करोड़ सत्तावन लाख चालीस हजार मात्र)	रू. 25,74,000/- (रुपये पच्चीस लाख चौहत्तर हजार मात्र)

- नीलामी बिक्री वेबसाइट पोर्टल <u>https://www.bankeauctions.com</u> के माध्यम से ''ऑनलाइन ई-नीलामी'' हारा को जायेगी ज.घ.रा. ''बसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली-खाता सं. आर.सी. सं. 339/2019'' के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्टणे ऑर्डर हार या निम्नलिखित खाते में एनईएफटी/आस्टीजीएस के माध्यम से जमा की जानी है-पंजाब नैशनल बैंक, खाता सं. आईएफएससी कोड PUNB0416800. स्वसत्यापित पहचान प्रमाण-पत्र की प्रति (मतदाता पहचान-पत्र/डाइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट प में कथित डिमाण्ड जिसमें भावी सम्पर्क के लिए पता हो तथा पैन कार्ड की स्वसत्पापित प्रति अधिकतः 08.01.2024 को 5.00 बजे अपरास्त से पूर्व तक समूली अधिकारी-1, डीआरची-11, रिल्लो के पास पहुँच जाने चाहिए। इसके प्रचार प्रान हुए ज.ध.घ. अववा ज.ध.घ. के मूल प्रमाण पर विचार नहीं किया जायेगा। भेजने वाले के विचरण अर्थात पता, ई-मेल आईडी एवं मौबाइल नम्बर आदि सहित एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ज.ध.घ. अथवा ज.ध.च. के पुनातान के मूल प्रमाण वाले लिफाफे पर ''आरसी से 339/2019'' लिखा जाना चाहिए। सम्पत्ति का विक्रम ''जो हैं जैसे हैं'' तथा ''जो है यही है''आधार पर किया जा रहा है।

संविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी संविदाएँ जमा करने तथा ई-नीलामी विक्रय की कार्यवाहियों में भाग लेने से पूर्व ई

HDB SMANERAL ST

मार्ग के सम्भुख, सी-स्क्रीम, नयपुर, रानर

सरफॉएसि अघिनियम 2002 की घारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

आप, निम्न वर्णित ऋणकर्ता, सह—ऋणकर्तागणों और गारंटरगणों ने अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभृतियों) को बंधक रखर आए, निम्म वाणत ऋणकतो, साह-ऋष्णकतागणों और गारंटरगणों ने अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिसूत्रियों) को बंबक रखर एयहंबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से ऋण(ऋणानेक)/ वित्तीय सुविधा(ए) प्राप्त की थीं और आप ने अपने वित्त अनुसासन को बनाये नहीं रखा उनका प्रतिनृत्तान करने में चुक कर चुके हैं। आपकी चुकों के परिणामसरक्य, आर ऋण को अतिष्मादनीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। इसलिये अब, इसके उपरांत, कंपनी ने वित्तं परिसंपत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्गिर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) अंतर्गत मांन मुचना निर्मात की हैं जिसकी विषय-वन्तु को, आपको सूचना से अवगत करने के वैकट्सिक संवा-माछ के रूप में तथा उसके द्वारा, प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावती 2002 के नियम 3(1) के साथ पिठत अधिनियम की धार 13(2) के अनुसार यहां निम्नानुसार फ्राणित किया जा रहा है। ऋणकर्ताओं, सह-ऋणकर्ताओं, ऋण खाता सं, ऋगारि, धारा 13(2) के अंतर्गत निर्मत मांग सूचना तिथ, सूचना के अंतर्गत अध्यर्थित राशि, एनपीए तिथि तथा प्रतिनृति के विवरण निम्नानुसार दिए गए हैं: के विवरण निम्नानुसार दिए गए हैं

के विवरण निम्नानुसार दिए गए हैं :

1. ज्यारकोर्त और सह-ज्यारकराओं के नाम : मैसर्स भगवती स्टील फर्नीचर — 17 मोती नगर संगरिया जोघ जोघपुर — 342001 राजस्थान और इसके अलावा — पी. नं. 70 व्यसरा नंबर 87, 88, 89, 91 व 92 ग्राम संगरिय जोघपुर—342001 राजस्थान वेदा राम — 70 इंद्रा नगर सालावास रोड पशु आहार संगरिया जोघपुर—34200 राजस्थान देदा राम — 70 इंद्रा नगर सालावास रोड पशु आहार संगरिया जोघपुर जोघपुर—3420 राजस्थान — नीरा देवी — 70 इंद्रा नगर सालावास रोड पशु आहार संगरिया जोघपुर अ42001 जोघपुर—3420 राजस्थान — शिव लाल — 17 मोती नगर संगरिया जोघपुर राजस्थान — 242001 — देदा राम — 17 मोती नगर संगरिया जोघपुर राजस्थान—342001, ऋण खाता संख्या : 13936992 ही राजस्थान—342001 — देवा राम — 17 मोती नगर संगरिया जोघपुर राजस्थान—342001, ऋण खाता संख्या : 13936992 ही राजस्थान—342001 — देवा साला संख्या विवर्ध : 13936992 ही रु. 2155000/— (इंक्कीस लाख वावी सह जार मात्र) और ऋण खाता संख्या 6728580 हो रु. 2155000/— (इंक्कीस लाख पचहनर हजार रुपये मात्र), मांग सूचना दिनांक : 20.112023 ; दावा की गई राशि रु. 2533351.71 (पच्चीस लाख तीतीस हजार तीन से इत्यावन रुपये एवं केवल इंकहत्तर पेसे) 15.11.2023 तक अध्यक्त क्राय स्वार्ध अध्यक्त क्राय स्वार्ध केवल इंकहत्तर पेसे) 15.11.2023 तक अध्यक्त क्षाय स्वर्ध केवल इंकहत्तर पेसे) 15.11.2023 तक अध्यक्त क्षाय स्वर्ध केवल इंकहत्तर पेसे) 15.11.2023 तक अध्यक्त क्षाय स्वर्ध केवल इंकहत्तर पेसे। 15.11.2023 तक अध्यक्त क्षाय स्वर्ध केवल इंकहत्तर पेसे। 15.11.2023 तक अध्यक्त क्षाय स्वर्ध केवल इंकहत्तर पेसे। प्राप्त और शुल्क आदि संस्था क्षाय स्वर्ध केवल इंकहत्तर पेसे। 15.11.2023 तक अध्यक्त क्षाय संस्था केवल क्षाय संस्था केवल क्षाय क्षाय संस्था क्षाय संस्था क्षाय क्षाय संस्था क्याय संस्था क्षाय संस्था क्षाय संस्था क्षाय संस्था क्षाय संस्था क्षाय क्षाय संस्था क्षा ्रव्यक्षण रुपर पूर केवल इंग्लंडस पांच सामा क्यार साम इंग्लंबन एक पूर केवल इंग्लंडस परा 15.11.2023 तक अ आकरिसक क्यार, वृत्तमत और शुल्क आदि के साथ वास्त्रविक प्राप्ति तक भविष्य का संविदात्तक ब्याज, एनपीए ना 02.11.2020; सुरक्षी का विवरण : संपत्ति के सभी दुकड़े और पार्सल, प्लॉट नंबर नि. खसपु नंबर 87.88.89.91 और का हिस्सा, संगरिया, जोघपुर में स्थित 131.94 वर्ग गज का माप, पंजीकृत पट्टा विलेख के अनुसार देदा राम के स्वाप्ति में हैं दिनांक 09.09.2009 जोघपुर में जेडीए द्वारा निष्पादित। पूर्व में घिरा— प्लॉट नंबर 55 पश्चिम— सङ् उत्तर – प्लॉट नंबर 69, दक्षिण – प्लॉट नंबर 71

उत्तर — स्ताट नबर 68, दाहाण — स्ताट नबर 71
2 उच्चारकर्ता और सह-च्यारकर्ताओं के नाम : मैससे सालासार इमिटेशनं — 34 सरदार पटेल नगर पाली-306401
राजस्थान — और इसके अलावा — भी. नें. 8, सरदार पटेल नगर, पाली 306401 पाजे-306401 — उद्या एस — 28 सरदार
पटेल नगर पाली – 306401 राजस्थान — संदेश शर्मा — 28 सरदार पटेल नगर पाली — 306401 राजस्थान — बद्री प्रसाध — 28 सरदार पटेल नगर पाली — 306401 राजस्थान — बद्री प्रसाध — 28 सरदार पटेल नगर पाली — 306401 राजस्थान — केंद्री प्रसाध — 28 सरदार पटेल नगर पाली — 306401 शालास्थान — केंद्री प्रसाध — 306401 शालास्थान — केंद्री प्रसाध — 3181619.58 /— (अहार लिप्प अववाईस लाख मात्र), मांग सूचना दिनांक; 2011.2023 , दावा की गई राशि : इ. 1811619.58 /— (अहार लाख गारह हजार छह सी उन्नीस रूपये एवं अहावन वैसे मात्र) 15.11.2023 तक और वास्तविक वसूली तक मा संविदासक व्याज, आकर्षमक व्यवं, लागत और सुल्क आदि सहित, एनपीए दिनांक : 2011.2023, सुरक्षा का विदरण स्वर्धित स्वर्धी नक्ष अध्या लागत अंश स्वर्धीय केंद्री स्वर्धीय स्वर्धीय केंद्री स्वर्धीय स्वर्धीय केंद्री स्वर्धीय स संपत्ति के सभी ठुकड़े और पासंत, प्लॉट नंबर 08 सरदार पटेल नगर पाली 306401, भूमि/ प्लॉट का क्षेत्रफल 1200 व फुट, निम्नानुसार परिसीमित : पूर्व— सड़क 25', पश्चिम— प्लॉट नंबर 09, उत्तर— सड़क 25', दक्षिण— झा गोदा की गली।

3. उघारकर्ता और सह-उघारकर्ताओं के नाम : राजेंद्र क्लॉथ स्टोर - 2, 3 गौरव प्लाजा आनंद्र क्रॉकरी के पास गर में ग्रुमानपुरा कोटा - ,324005 राजस्थान और इसके अलावा - प्लॉट नंबर बी-181, इंद्र विहार क्लोनी कोटा को राजस्थान कोटा-324005 - शंभू दयाल अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा कोटा-32400 राजस्थान - मंजू अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - ,ऋण खाता संख्यात ने मंजू अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - 324005 राजस्थान, ऋण खाता संख्यात ने मंजू अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - 324005 राजस्थान, ऋण खाता संख्यात ने मंजू अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - 324005 राजस्थान, ऋण खाता संख्यात ने मंजू अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - 324005 राजस्थान, ऋण खाता संख्यात ने किंदि के प्राथम के प्राथम ने अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक बी इंद्र विहार कोटा - अग्रवाल - मकान नंबर बी-181 ब्लॉक विहार कोटा - अग्रवाल - मकान . 12839193 / 2339093 / 4182915; ऋण राशि : रु. 1274921 / – (बारह लाख चीवहरार हजार नी सी इक्कीस रूप मात्र) ऋण खाता संख्या 12839193 द्वारा एवं रु. 5214090 / – (रुपये बाबन लाख चीवहरा हजार नब्बे मात्र) ऋण खात ारते वर्ता पाता पाता प्रदेश विकास प्रदेश हैं कि प्रति है जिससे प्रति है जिससे कि स्वाप तथा है है कि प्रति है ज सर्वस्था 2339993 द्वारा, एवं रु. 19980873 / पुरिनेसि त्याय नवें है चार आहे तो तिहस्तर रूपमें मात्र) ऋण खाता क्रमा 4182915 द्वारा, मांग सूचना दिनांक : 20.11.2023 ; दावा की गई राशिः रु. 7841307.13 (रुपये अटल्ड्सर लाख इकताली हजार तीन सौ सात एवं तेरह पैसे मात्र) 15.11.2023 तक और आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि सहित वास्तवि हजार तीन सी सात एवं तेरह पैसे मात्र) 15,11,2023 तक आर आकारसक व्यय, लागत आर शुक्क आद साहत वास्ताव प्राप्ति तक मविष्य का संविदात्मक व्याजः, एनपीए दिनांक : 02.11.2023; सुरक्षा का विदरण : प्लॉट के सभी टुकड़े कें पार्सल – बी–181, इंद्र विहार कॉलोनी क्रोटा, राजस्थान क्षेत्रफल 167.17 वर्ष मीटर मानू अग्रवात के नाम पर पंजीकृ विक्रय पत्र दिनांक 24/11/2005 के अनुसार उप-रंजिस्ट्री कोटा के कार्यालय में बुक नंबर 1 खंड संख्या 33 प्रैज ह पर क्र.सं. 4661 दिनांक 26/11/2005 में पंजीकृत हैं। संपत्ति इस प्रकार परिसीमित हैं : उत्तर- प्लॉट संख्या 17. दक्षिण- रोड, पूर्व- प्लॉट-बी-186, पश्चिम- प्लॉट 182

4 जघारकर्ता और सह—उघारकरांओं के नाम ः मैसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी — 01 जोबपुरिया गेट हिम्मत नग सोजत — 306104 राजस्थान — और इसके अलावा — घांधियों की हथाई सोजांत सिटी सोजत — 306104 — अशो बोराणा — घांचियों की हताई महालक्ष्मी मंदिर के पास सोजत — 306104 राजस्थान रेखा देवी — घांचियों की हता महालक्ष्मी मंदिर के पास सोजत—306104 राजस्थान ऋण खाता संख्या : 5502381; ऋण राशि : रू. 2500000/— (पच्यो मंडातिसां मंत्रिय के पांस सीजात-305104 राजस्थान, ऋण खाता सख्या : 5502381; ऋण गांश : रु. 2500000/ - (पत्थाः तात्या रूपये गांन), गांग सुचना दित्तांक : 20112023; यावा की गई राशि : रु. 191188103/ - (रुपये उन्नोका यागर हंजार आठ सी इक्यासी एयं तीन पैसे मात्र) 15.11.2023 तक और आकस्मिक व्यय, तागत और शुक्क आदि सिंह वास्तिविक प्राप्ति तक मंद्रियां का संविदासक व्याप्त-एनंपीए विनांक : 02.11.2023; सुरक्षांभ्रका विवरण : गांध्यों की हथा। स्तीजत दिती, तहसील सोजत, पांती, राजस्थान को वह सारा टुकड़ा और पांसील 150.55 वर्ष गण को बोत्रफल लों। स्तीजत (पहा) संद्रुप्या 416, नंगर पासिका मंडल सोजत हारा श्री अशोक बरन पुत्र श्री अमरराम और श्रीमती रेखा देवी पर श्री अशोक बोराणा के पक्ष में जावी – संपत्ति सीमा : उत्तर : मोकी देवी नाथाराम का घर, दक्षिण : बस्तीराम हीराज का घर, पूर्व : श्रीमाली ब्राह्मणों का शंकर बाग भवन, पश्चिम : सड़क और हेमाराम गांची का घर

5 उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं के नाम : मैससे प्रियंका जनरल स्टोर — प्लॉट नंबर 61 शिव नगर 3 राम नगरिय जगतपुरा जटपुरा जयपुर —302025 राजस्थान सुमित्रा ए — 61 शिव नगर 3 राम नगरिया जगतपुरा जयपुर —30202 जारातुर्घ जटपुर जवपुर -302025 राजस्थान सुमन्ना ए - 61 शिव नगर 3 राम नगरिया जारातुरा जयपुर -30202 राजस्थान एक राजस्था निकृत्य के प्रति नगर 3 राम नगरिया जारातुरा जयपुर -30202 राजस्थान - हमुमा सी - 61 शिव नगर 3 राम नगरिया जारातुरा जयपुर -302025 राजस्थान - अक्षोक सीधरी - 61 शिव नगर 3 राम नगरिया जारातुरा जयपुर -302025 राजस्थान नारिया जारातुरा जयपुर -302025 राजस्थान केट साम नगरिया जारातुरा निक्र साम निक्र साम नगरिया जारातुरा निक्र साम नगरिया जारातुरा निक्र साम नगरिया जारातुरा निक्र साम नगरिया जारातुरा निक्र साम निक्र और रु. 202000/— (रुपये दो लाख दो हजार मात्र) ऋण खाता क्रमांक 68428 हारा; मांन पूचना दिनांक : 20.17 2023: दावा की गई राशि : रु. 2752565.47 (सताईस लाख बावन हजार पांच सौ पैंसठ रुपये एवं पैसे सँतालीस मात्र 2023, साथ के गई शाश : रू. 276256547 (स्ताइस लाख बावन हजार पाव सा प्रसल रुपये एवं पस स्तालास मात्र 15.11.2023 और 16.11.2023 और 16.11.2023 तक और वास्तविक वसूली तक मेबिया का संविदासक ब्याज एक सार आकृत्मिक खर्चों, लागत और शुक्क आदि के साथ: एनपीए दिनांक : 02.11.2023, सुरक्षा का विवरण : पी नंबर 61 ही: नगर- III. राम नगरिया, जगतपुरा, जयपुर के सभी टुकड़े और पासंल जो छोटू राम जाट के पक्ष में लीज औड़ क्रमांट 10254 (दस्तावेज संख्या 2013051015442 के अनुसार 30–09–2013 को नवीनीकृत), पुस्तक संख्या 1 खंड संख्या 78 पेज ने 108 से 108 पर 3–10–2013 को पंजीकृत किया गया। संपत्ति इस प्रकार परिसीमित है : जतर- पी. नं. 60

विश्वम— पी. नं 62, पूर्व— पर्वाट, परिवाम— रोड।

 उपारकर्ता और सह—उधारकर्ताओं का नामः श्री धारमुजा फिलिंग स्टेशन — एसएव ०७ बोरादा बोरादा सरवर रोड केंकड़ी — 305404 राजस्थान — और इसके अलावा — औद्योगिक रूप से परिवर्तित मूर्मि खंसरा संख्या 1256/1/1 ज ग्राम बोराडा तहसीक्व सरवर जिला अजमेर कियुनगढ़ — 305801 में स्थित है — हरि प्रसाद शर्मा — करिवाल मोहल्ल बोराडा किशनगढ़—305801 राजस्थान — स्नेहलता बी — करिवाल मोहल्ला बीराडा किशनगढ़—305801 राजस्थान, ऋष् बतात संख्या : 7884445 / 15616515; ऋण राशि : रू. 3300000 / – (तितीस लाख रुपये मात्र) ऋण खाता क्रम्या : बतात संख्या : 7884445 / 15616515; ऋण राशि : रू. 3300000 / – (तितीस लाख रुपये मात्र) ऋण खाता क्रमांव 7884445 द्वारा एवं रू. 609000 / – (छ: लाख नी हजार रूपये मात्र) ऋण खाता संख्या 15616515 द्वारा, मांग सूचन दिनांक : 20.11.2023; दावा की गई राशि : रू. 2458952.19 (रुपये चौबीस लाख अहावन हजार नी सौ बावन एवं उन्नीर पैसे मात्र) – 15.11.2023 तक और वास्तविक वसूली तक भविष्य का संविदात्मक व्याज सहित आकरिमक व्यय, लागर और शुल्क आदि, एनपीए दिनांक : 02.11.2023; सुरक्षा का विवरण : 3797.00 वर्गे मीटर मापने वाली बेरिंग औद्योगिक रूपांतरित मूमि के सभी दुकड़े और संपत्ति जो ग्राम बोराडा, तहसील सरवर, जिला अजमेर में स्थित खसरा संख्य रुपातात्त्व मृत्ति क समा दुकड़ आर सपात्त जा ग्राम बाराडा, तहसाल संस्वर, जाला जाज़मर मा म्ह्यत खसारा साव्य 1258/1/1 में शामिल हैं, जिसका स्वामित्व मैसर्स हरि प्रसाद शर्मा, प्रो, श्री हरि प्रसाद शर्मा पुत्र श्रीधर शर्मा के पाह है, जिसे जम-रजिफ्ट्रान सरवर के साथ पंजीकृत किया गया है 4–5–2012 को पुस्तक संख्या 1 खंड संख्या 288, पूर्व संख्या 71, क्रम संख्या 2081 में और पुस्तक संख्या 1 खंड संख्या 284 पृष्ट संख्या 5383–84 में विपकाया गया। संपरि इस प्रकार परिसीमित हैं – जसर– सागर मिनरल, पूर्व– कृष्ण गोपाल वर्मा, पश्चिम– सरवर डोड, दक्षिण– चारमुज फिलिंग स्टेशन की संपत्ति।

7. उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नीम : एक्सेसरीज मोबाइल पॉइंट – बौधरी सदन अजमेर रोड, किशनगढ़- 30580: राजस्थान -और साथ ही – पहा संख्या 19/352 गुजरों की ढाणी गो शाला सांवतसर मदनगंज तहसील किशनगढ़ ने स्थित संपत्ति किशनगढ़-305801 – प्लैट, जी – बालाजी की डूंगरी के नीचे सांवतसर किशनगढ़- 30580 राजस्थान – धन्नी देवी – बालाजी की डूंगरी के आला सांवतसर किशनगढ़-305801 राजस्थानरू ऋण खांत संख्या: 3341635/13590523; ऋण राशिक ऋण खाता संख्या 8341635 होगा क 2500000/- (पच्चीस लाख रुपये मात्र और ऋण खाता संख्या 13890523 द्वारा रू.4840001- (चार लाख चौराती हजार रुपये मात्र), मांग सूचना दिनांक 20.11.2023 : दावा की गई राशिः रु. 15.11.2023 तक 2491324.59 (चीबीस लाख इक्यानंवे हजार तीन सौ चौबीस रच्या - प्रेर प्रेस पर्य पान प्रशासिक प्राचित होता है। उन्हान क्रमण्ड ने प्रसिद्ध होता होता होता सा माना स्थास स्पर्य - पेसे अद्वर्द्धि पेसे मान्ने और आकर्षिमक क्या, लागत और शुक्क आदि सहित वास्तविक कर्मुली तक मिक्य, क्रां संविदात्मक ब्याज, एनपीए दिनांक : 02.11.2023; सुरक्षा का विवरणक 117.75 वर्ग मीटर की संपत्ति का पूरा टुकड़ा और प्रगति। पृष्ठा संख्या 19,7452, गुजरो की वाणी, गो शाला, अमवतसर, मदनगंज, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है। पंजीकृत पद्म विलेख संख्या 19/362 (शाज्य ग्रेंड एक्ट 1961 के तहत) के अनुसार श्रीमती घानी के स्वामित